

1. ENGLISH

PAPER-1: Non-Fiction –
Reading Comprehension
Review Writing
Argumentative Letter
Summary Writing
Sentences: Simple, Complex, Compound,
Compound-Complex

PAPER-2: Fiction –
Diary Entry
Narrative Writing - Detective / Suspense
Literary Devices
The Landlady (Story)
Dusk (Story)
Dust of Snow (Poem)
The Listeners (Poem)

2. HINDI

Paper one

व्यावहारिक व्याकरण - संधि (दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण),
हिंदी की गिनती, विशेषण (परिभाषा, भेद, विशेषण शब्दों
की रचना), पर्यायवाची शब्द (1 से 20), विलोम शब्द (1
से 20), वाक्यांश के लिए एक शब्द

लेखन - अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, अनौपचारिक पत्र,
अपठित गद्यांश

Paper Two

वसंत - लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, पानी की कहानी,
दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिये, जहाँ पहिया है

उन्मेष - वृक्षपुराण, रिश्ते कमाइए, गौरा, कुसंग का ज्वर

3. FRENCH

Unité 1 , unité 2 ,unité 3 Production écrite ,
Compréhension écrite , vocabulaire -
unité 1,
,2,3,4 . Les verbes en "er" "ir" , les verbes
irreguliers
Les expressions negatives , le temps -
présent, passé composé, futur simple ,
imparfait .

4 संस्कृत

पाठः - 1,7,9,10,11,14

अपठित गद्यांशः , समयः , संख्यावाचकाः (1-100)

पत्र लेखनं , धातुरूप (आत्मनैपद) , स्वर संधि ।

5. MATHEMATICS:

1. Integers Powers and Roots
2. Expressions and formulae
3. Shapes and Mathematical drawings
4. Place value
5. Grouped data and sampling
6. Area, perimeter and volume
7. Fractions and decimals
8. Equations and inequalities
9. Geometry
10. Presenting data and Interpreting results
11. Ratio and proportion
12. Sequences , functions and graphs
13. Transformations
14. Probability

6. PHYSICS

unit 3: Forces and energy

unit 6: Sound and space

unit 9: Electricity

7. CHEMISTRY

UNIT 2 PROPERTIES OF MATERIALS

1. ATOMIC STRUCTURE AND THE PERIODIC TABLE

2. TRENDS IN GROUPS WITH IN THE PERIODIC TABLE

3. WHY ELEMENTS REACT TO FORM COMPOUNDS

4. SIMPLE AND GIANT STRUCTURES

UNIT 5 REACTIVITY

1. REACTIVITY AND DISPLACEMENT REACTIONS

2. USING THE REACTIVITY SERIES AND DISPLACEMENT REACTIONS

3. SALTS

4. OTHER WAYS OF MAKING SALTS

5. REARRANGING ATOMS

UNIT 8 RATES OF REACTION

1. MEASURING THE RATE OF REACTION

2. SURFACE AREA AND THE RATE OF REACTION

3. TEMPERATURE AND THE RATE OF REACTION

4. CONCENTRATION AND THE RATE OF REACTION

8 GEOGRAPHY

Unit-1 Environmental Regions

Unit-2 Plate Tectonics

Unit-3 Resources and The Environment

Unit-6 Key Skills

Instruments, Contours, Map Skill

Case Studies:

1. An Earthquake
2. A Volcano
3. Amazon Forest
4. Sahara Desert

9. BIOLOGY

Unit-1: Photosynthesis and carbon cycle

1.1 Photosynthesis

1.2 More about photosynthesis

1.3 The Carbon Cycle

1.4 Climate Change

Unit- 4: Maintaining Life

4.1 Plants and water

4.2 Transpiration

4.3 Excretion in Humans

Unit -7 Genes and Inheritance

7.1 - Chromosomes genes and DNA

7.2- Gametes and Inheritance

7.3- Variations

7.4 - Natural Selection

10. HISTORY & CIVICS

History

Ch1 How, When and Where?

Ch2 From Trade to Territory

Ch3 Ruling the Countryside

Civics

Ch1 The Indian Constitution

Ch2 Understanding Secularism

Ch3 Why do We Need a Parliament

11. SPANISH

Chapter 1 to Chapter 5

Grammar from chapter 1 to chapter 5

Writing skill

Comprehension

Listening assessment

Speaking assessment

12. Computer Science

Ch-1 Computer Network

Ch-2 Introduction To Access

Ch-3 Working with Queries, Forms, And Reports